



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 145]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 1982/श्रावण 25, 1904

No. 145] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 1982/SRAVANA 25, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं० 32-ईटीसी(पीएम)/82

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1982

विषय :- 1982-83 के दौरान गेहूं के बीजों की निर्यात नीति ।

मिसिल सं० 40(39)/82-ई-2--उपर्युक्त विषयक नियमित (नियंत्रण)
संशोधन आदेश सं० ई(सी)ओ 1977/एम (247) दिनांक 16 अगस्त,
1982 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. अभी गेहूं के बीजों सहित खाद्यान्न बीजों का निर्यात खुले सामान्य
लाइसेंस सं० 3 के अन्तर्गत अनुमति है जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता
प्राप्त प्रमाणीकरण अभिकरण या राष्ट्रीय बीज निगम के गुण नियंत्रण
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है। स्थिति की पुनरीक्षा करने पर,
यह निश्चय किया गया है कि जब कि पहले की भांति ही खाद्यान्न बीजों
के निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत अभी भी देना
जारी रखा जाएगा। किन्तु गेहूं के बीजों के निर्यात की अनुमति देने के
लिए आवेदनों पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा "गुण-
वत्ता" के आधार पर विचार किया जाएगा।

3. परिवर्तन के पूर्व किए गए सौदे जो इस सार्वजनिक सूचना के जारी
होने से पहले के हैं। उन पर विचार आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक
1982-83 की कठिका 226 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
आवेदक उपर्युक्त कठिका में उल्लिखित क्रियाविधि का अनुपालन करेंगे।

4. तबनुसार 1982-83 के लिए आयात-निर्यात नीति (जिम्मे 2) के
नीति विवरण के पृष्ठ 14 पर की क्रम सं० 24(4) के सामने प्रदर्शित
वर्तमान प्रविष्टि नीचे दिए गए के अनुसार संशोधित की जाएगी :-

1	2	3
24(4)(क) खाद्यान्न बीज	निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस 3 के अन्तर्गत दिए प्रावधानों के अनु- सार अनुमित किया जाएगा।	
24(4)(ख) गेहूं के बीज	"गुणवत्ता के आधार पर"	

मणिनारायणस्वामी,
मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

**MINISTRY OF COMMERCE
EXPORT TRADE CONTROL**

Public Notice No. 32-ETC (PN)/82

New Delhi, the 16th August, 1982

Subject:—Export Policy of Wheat Seeds during 1982-83.

File No. 40(39)/82-EII:—Attention is invited to Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(247) dated the 16th August, 1982, on the above subject.

2. At present export of Foodgrain Seeds including Wheat Seeds is allowed under CGL-3 subject to production of a Quality Control Certificate from a Certification Agency recognised by State Government or the National Seeds Corporation. On a review of the position, it has been decided that while export of Foodgrain Seeds shall continue to be allowed under OGL-3 as hitherto, requests for allowing export of Wheat Seeds shall be considered "On Merits" by the Office of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi.

3. Pre-change commitments entered into prior to the issue of this Public Notice shall be considered in terms of provisions of paragraph 226 of the **Hand Book of Import Export Procedures, 1982-83**. The applicants should follow the procedure laid down in the aforesaid paragraph.

4. Accordingly the existing entry appearing against S. No. 24(iv), at page 14 of the Policy Statement of Import and Export Policy for 1982-83 (Vol. II) shall be amended to read as under:—

S. No. as in Part 'B' of Schedule I	Description of the item	Licensing Policy
1	2	3
24(iv)(a)	Foodgrain Seeds	Export will be allowed as provided under OGL-3.
24(iv)(b)	Wheat Seeds	"On Merits".

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller
of Imports & Exports